

गोरखपुर: ट्रेन की केबिन वॉल में छिपाकर बिहार से दिल्ली भेजी जा रही 20 Kg चरस बरामद

टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Feb 13, 2019, 11.53 AM IST



प्रतीकात्मक चित्र

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिल्ली जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से बीस किलो चरस बरामद हुई है। यह चरस ट्रेन की जनरल बोगी के टॉइलट में केबिन वॉल में छिपाकर रखी गई थी। सूचना पर पहुंची कस्टम की डीआरआई टीम ने इस चरस की खेप को बरामद किया।

डीआरआई के निदेशक आनंद राय ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सत्याग्रह एक्सप्रेस में चरस की तस्करी हो रही है। ट्रेन गोरखपुर के पिपराइच रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। यहां पर एक टीम को भेजा गया। टीम ने ट्रेन से बीस किलोम चरस बरामद की।

निदेशक ने बताया कि अगर उन्हें सटीक जानकारी न होती तो चरस की बरामदगी मुश्किल थी क्योंकि इसे जनरल बोगी के टॉइलट में केबिन के पीछे छिपाकर रखा गया था। टीम ने टॉइलट का केबिन की दीवार तोड़ी तब उसके पीछे से चरस के पैकेट बरामद हुए। उन्होंने बताया कि चरस की तस्करी के बारे में उन्हें गिरफ्तार किए गए कुछ तस्करों ने बताया था।

उन्होंने बताया कि तस्कर टॉइलट में इस तरह से चरस छिपाकर रखते थे और फिर ट्रेन की उस बोगी का नंबर नोट कर लेते थे। यह नंबर आगे बढ़ा दिया जाता था और ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के बाद चरस निकाल ली जाती थी। अधिकारियों ने बताया कि यह चरस दिल्ली ले जाई जा रही थी जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपये आंकी गई है। उन्होंने बताया कि चरस पहले नेपाल से अवैध तरीके से भारत लाई गई फिर यहां बिहार के रक्सौल से दिल्ली भेजा जा रहा था।

[इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ें](#)

20 kg drugs found in cabin wall of train toilet

TNN | Feb 13, 2019, 07:38 AM IST



VARANASI: The directorate of revenue intelligence sleuths from Varanasi field unit caught a consignment of 20 kg charas from general compartment of Delhi-bound Satyagrah Express at Pipraich railway in Gorakhpur district on Monday evening.

According to directorate of revenue intelligence Varanasi unit in-charge Anand Rai, on a tip-off, he rushed a team to Gorakhpur district. Rai said that the packets of charas were recovered on breaking cabin walls of toilet of a general compartment of the Satyagrah Express.

Following the initial investigation, Rai said, it surfaced that the consignment had been kept in the train in Raxaul (Bihar) to send it to Delhi.

He said that some gangs, which hide consignments of drugs by opening upper chambers of toilets in trains, are on the radar of directorate of revenue intelligence. This trick of drug smuggling ends possibility of nabbing of their carriers, he said adding that after packing consignments in trains the members of the gangs forward the bogie number to the persons, who receive it in Delhi or other cities.

[Hindi News](#) › [Uttar Pradesh](#) › [Gorakhpur](#) › [सत्याग्रह एक्सप्रेस से 20 किलो चरस बरामद](#)

सत्याग्रह एक्सप्रेस से 20 किलो चरस बरामद

 [गोरखपुर ब्यूरो](#) Updated Wed, 13 Feb 2019 12:37 AM IST

सत्याग्रह एक्सप्रेस से 20 किलो चरस बरामद। न के टॉयलेट में छिपाकर दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। मुखबिर की सूचना पर कस्टम की डीआरआई टीम ने की की कार्रवाई अमर उजाला ब्यूरो

गोरखपुर। सत्याग्रह एक्सप्रेस से तस्करी कर ले जाई जा रही 20 किलो नेपाली चरस को कस्टम की डीआरआई टीम ने बरामद किया। हालांकि कोई तस्कर पकड़ में नहीं आया। ट्रेन की टॉयलेट में चरस के पैकेट छिपाए गए थे। चरस को दिल्ली ले जाया जा रहा था। बरामद चरस की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपये आंकी गई है। डीआरआई (राजस्व अभिसूचना निदेशालय) की टीम को वाराणसी से सत्याग्रह एक्सप्रेस में चरस ले जाने की गोपनीय सूचना मिली थी। मुखबिर ने सत्याग्रह एक्सप्रेस की जनरल बोगी के टॉयलेट में चरस छिपाकर दिल्ली ले जाने की जानकारी दी थी। डीआरआई की टीम के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आनंद राय के निर्देशन में इंटेलिजेंस ऑफिसर लेखराज मौर्य के नेतृत्व में गोरखपुर टीम के साथ मिलकर वाराणसी की टीम ने पिपराइच स्टेशन पर ट्रेन को रोककर तलाशी ली। टॉयलेट में छिपाकर रखी गई 20 पैकेट नेपाली चरस बरामद की गई। चरस को एक-एक किलो के पैकेट में रखा गया था। विभागीय सूत्रों के मुताबिक चरस को नेपाल से अवैध रूप से भारत में लाकर रक्सौल (बिहार) से ट्रेन के जरिए दिल्ली और अन्य शहरों में पहुंचाने की कोशिश की जाती है।